



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 16, 2004/फाल्गुन 26, 1925

No. 64 ]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 16, 2004/PHALGUNA 26, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

( पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2004

जांच शुरूआत (समीक्षा)

विषय : यूके, फ्रांस और हंगरी से ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक पेपर जिसमें रेजिन कोटे/फाइबर आधारित दोनों शामिल हैं पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के बारे में समीक्षा शुरू करना।

सं. 15/7/2004-डीजीएडी.— 1995 में यथासंशोधित टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 24 अक्टूबर, 2000 की राजपत्र अधिसूचना सं. 19/1/99-डीजीएडी के तहत यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के क्रमशः सीमाशुल्क टैरिफ उपशीर्ष 3703.90 और 3703.10 में यथाउल्लिखित यूके, फ्रांस तथा हंगरी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक पेपर जिसमें रेजिन कोटेड/फाइबर आधारित दोनों शामिल हैं, के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। भारत सरकार ने 23 जून, 2000 की अधिसूचना सं० 93/2000 सी.शु. के तहत अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया था जिसकी पुष्टि 21 दिसम्बर 2000 की अधिसूचना सं० 149/2000-सीमाशुल्क द्वारा की गई थी।

## 2. विचाराधीन उत्पाद

विचाराधीन उत्पाद सभी रूपों अर्थात् कट शीट्स और जंबो रोल्स अथवा मास्टररोल्स में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ पेपर है जिसमें रेजिन कोटेड और फाइबर आधारित दोनों प्रकार के पेपर शामिल हैं (जिन्हें आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के सीमाशुल्क उपशीर्ष क्रमशः 3703.9 और 3703.10 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के क्षेत्र पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

## 3. जांच शुरुआत

सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत प्राधिकारी से यह अपेक्षा की गई है कि वह केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के सतत अधिरोपण की जरूरत की समय समय पर समीक्षा करें। संबद्ध वस्तु के आयातकों में से एक आयातक मै0 एलाएड फोटोग्राफिक इंडिया लि0 ने यह आरोप लगाया है कि मूल जांच के दौरान सह याचिकाकर्ता और भारत में संबद्ध वस्तु के प्रमुख उत्पादक मै0 न्यू इंडिया इंडस्ट्रीज ने पिछले 2-3 वर्षों से उत्पादन रोक दिया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी यह मानते हैं कि सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 के नियम 23 के प्रावधान के तहत इस स्तर पर संस्तुत पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करना उचित होगा।

## 4. प्रक्रिया

24 अक्टूबर, 2000 की अधिसूचना संख्या 19/1/1999-डीजीएडी के तहत अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों की समीक्षा का निर्णय लेने के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी एतद्वारा सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण एवं वसूली एवं क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 के अनुसार यूके, फ्रांस और हंगरी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सभी रूपों अर्थात् कट शीट्स और जंबो रोल्स अथवा मास्टर रोल्स में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक पेपर जिसमें रेजिन कोटेड तथा फाइबर आधारित दोनों प्रकार के पेपर शामिल हैं, के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के सतत अधिरोपण की समीक्षा करने की जांच शुरू करते हैं।

5. इस समीक्षा में 24 अक्टूबर, 2000 की अधिसूचना सं. 19/1/1999-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल हैं।

6. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अक्टूबर, 2002 से 30 सितम्बर, 2003 तक की है।

## 7. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देशों/क्षेत्र के निर्यातकों, भारत में संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को अलग से लिखा जा रहा है कि वे निम्नलिखित को निर्धारित पत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करें और अपने विचारों से अवगत कराएं :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी, कमरा नं० 243  
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय  
वाणिज्य विभाग  
उद्योग भवन,  
नई दिल्ली - 110011

कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी नीचे निर्धारित समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकती है।

## 8. समय सीमा

वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध लिखित में भेजा जाए जिसे इस समीक्षा अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से 40 दिन से पहले उपरोक्त पते पर पहुँचाया जाना चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त हुई सूचना अधूरी है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

## 9. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश रखे गए हैं।

10. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है तो प्राधिकारी उसके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th March, 2004

**Initiation (Review)**

**Subject : Initiation of Review regarding anti-dumping duty imposed on Black and White Photographic Paper including both Resin coated/Fibre based from UK, France and Hungary.**

No. 15/7/2004-DGAD.— The Designated Authority having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 thereof recommended imposition of definitive Anti-Dumping Duty on imports of Black & White Photographic Paper including both Resin coated/fibre based originating in or exported from UK, France and Hungary as indicated in Custom Tariff sub-headings 3703.90 and 3703.10 respectively of the Custom Tariff Act, 1975 as amended, vide Gazette Notification No. 19/1/99-DGAD dated 24<sup>th</sup> October 2000. The Government of India had imposed provisional Anti-Dumping Duty vide Notification No.93/2000-Customs dated 23<sup>rd</sup> June 2000, which was confirmed by Notification No.149/2000-Customs, dated 21<sup>st</sup> December 2000.

**2. Product Under Consideration.**

The Product under consideration is Black & White Photographic Paper including both Resin Coated and Fibre based papers in all forms viz. cut sheets and jumbo rolls or master rolls (henceforth also referred to as subject goods) which is classified under Custom sub-head 3703.90 and 3703.10 respectively of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the investigation.

**3. Initiation**

The Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Rules made there under require the Authority to review, from time to time, the need for continued imposition of definitive Anti-Dumping Duty imposed by Central Government. One of the importers of the

subject goods M/s Allied Photographics India Ltd, has alleged that M/s New India Industries, co-petitioners and the major producer of the subject goods in India during the original investigations has suspended production since last 2-3 years. The Designated Authority considers that the review of the Anti-Dumping Duty recommended would be appropriate at this stage under the provision of Rule 23 of Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995.

#### **4. Procedure**

Having decided to review the final findings notified vide 19/1/999-DGAD dated 24<sup>th</sup> October 2000, the Authority hereby initiates investigations to review the need for continued imposition of Anti-Dumping Duty on imports of Black & White Photographic Paper including both Resin Coated and Fibre based papers in all forms viz. cut. Sheets and jumbo rolls or master rolls originating in or exported from UK, France & Hungary in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment & Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995.

5. The review covers all aspects of the Notification No.19/1/1999-DGAD dated 24<sup>th</sup> October 2000.

6. The period of investigation for the purpose of present review is 1<sup>st</sup> October 2002 to 30<sup>th</sup> September 2003.

#### **7. Submission of Information:**

The exporters in subject countries/territory, the importers and users in Indian known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

The Designated Authority, Room No 243  
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties  
Department of Commerce  
Udyog Bhavan  
New Delhi-110011

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

**8. Time Limit:**

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may records its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

**9. Inspection of Pubic File**

In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

10. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ABHIJIT SENGUPTA, Addl. Secy. & Designated Authority